



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019  
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur September 05, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/8816** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Badi has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Badi. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगर पालिका मण्डल बाडी (धौलपुर) राज  
प्रोफार्मा - "क"

वार्ड नं	ब्लॉक नं	विवरण
01	01, 02	छीतर खां का पुरा नगर पालिका सीमा से दक्षिण की ओर करमपुरा आबादी को सम्मिलित करते हुये अरसद खां के मकान को शामिल करते हुये पूर्व की ओर नयांबास बाई ओर की आबादी को सम्मिलित करते हुये उत्तर की ओर अलीगढ मोड हनुमान मन्दिर को सम्मिलित करते हुये रानपुर रोड छीतर खां का पुरा नगर पालिका सीमा तक
02	09, 10 (1)	गुमट स्कूल वाटर वर्क्स डीपी के पीछे पश्चिम की ओर दाईं ओर की आबादी को शामिल कर बडा बाग नगर पालिका सीमा होते हुये उत्तर की ओर दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुये पूर्व की ओर करमपुरा हनुमान मन्दिर होते हुये पुनः दक्षिण की ओर दाईं ओर की आबादी को शामिल कर गुमट स्कूल कोलियों की धर्मशाला वाटर वर्क्स डीपी तक
03	06 07 08	गुमट बडी मस्जिद के सामने पूर्व की ओर कच्चे रास्ते के सहारे -सहारे अयूब लाला के मकान से पश्चिम की ओर कुम्हारन रास्ते के सहारे-सहारे दायी ओर

		की आबादी को शामिल करते हुये पश्चिम की ओर गंगा बैरा के कमरे से दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रभू सब्जी वाले की दुकान के सामने से होकर पश्चिम की ओर बुन्दा तेली के मकान से होते हुये उत्तर की ओर लज्जा हरिजन के मकान को शामिल करते हुये पुनः उत्तर की ओर रास्ते के सहारे की आबादी को शामिल करते हुये दयाराम साईकिल वाले के मकान तक वहां से पुनः मस्जिद के पीछे गोकुल नाई के सामने से होकर उत्तर की ओर तकिया चैक होकर वहां से पुराने मवेशी खाने के रास्ते की दायीं ओर की आबादी को शामिल करते हुये काठ के बंगले तक वहां से किले के सामने के रास्ते से दायीं ओर की आबादी को शामिल करते हुये गुमट बडी मस्जिद तक।
04	11 (1) 11 (2)	महेन्द्र सिंह की दुकान से रानपुर रोड दाईं ओर की बस्ती बन्ने खां हसनू चौधरी रामचरन जाटव के आगे से हनुमान मन्दिर वाली गली रामेश्वर कोली मकान को सम्मिलित करते हुये दक्षिण दिशा में ग्याप्रसाद चेरमैन के मकान को सम्मिलित करते हुये आगे पश्चिम दिशा में महेन्द्र सिंह की दुकान तक की बीच की बस्ती
05	10 (2) 12 (ए) 15	गुमट स्कूल वाटर वक्रस से विस्सो की दुकान तक दाईं आबादी को शामिल करते हुये पश्चिम की ओर दाईं बस्ती को लेते हुये नगर पालिका सीमा तक पुनः उत्तर की ओर तेलीयान बस्ती कुशवाह बस्ती को शामिल करते हुये रहीसा के सामने वाली बस्ती को लेते हुये कब्रिस्तान के बगल की गली इनायत खां के मकान को इममाबाडा कब्रिस्तान के सहारे सहारे माजिद खां कानूनगो के सामने होते हुये पुनः पूर्व की ओर परदेशिया कोलियान की समस्त आबादी को शामिल करते हुये जगन्नाथ कोली के मकान को शामिल करते हुये डोंगर कोली की दुकान से कैलाशी ताले वाले के मकान सडक के सहारे गुमट स्कूल वाटर वक्रस तक
06	20 21 22 23	अशोक बख्तपुरा वालों की दुकान से किशन कॉलोनी अजीजपुरा हवेली व उसके पीछे की आबादी को शामिल करते हुये छुटुआ तेली के मकान को शामिलकर अजीजपुरा वेदरिया गडरिया के मकान तक वहां से रास्ते के सहारे -सहारे दाईं ओर की आबादी एवं व्यास कॉलोनी को शामिल करते हुये अशोक बख्तपुरा वालों की दुकान तक एवं वनवारी लाल मास्टर के मकान से होते हुये उत्तर की ओर मुजाहिद के मकान होते हुये पूर्व की ओर दाईं ओर की बस्ती हामिद वाली गली को शामिलकरते हुये अजमेरी के कोने से रामपूजन वाली गली होते हुये वनवारी मास्टर के मकान
07	19  24 28 58	पीतम यादव के मकान से पश्चिम की ओर दाईं ओर की आबादी को शामिल कर नगर पालिका सीमा नहर तक वहां से उत्तर की ओर रेल्वे लाईन के सहारे पूर्व की ओर वहां से बख्तपुरा वालों के मकान तक वहां से उत्तर की ओर दाईं ओर की आबादी शामिलकर जमालपुरा कुशवाह बस्ती शामिल कर वहां पूर्व की ओर

		विशाल गुर्जर के मकान के सामने दक्षिण की ओर दाईं ओर आबादी धोबी बस्ती शामिलकर रामचरन वैष्य अध्यापक के मकान के सामने होकर बासदेव रहल वालों के मकान के सामने की आबादी शामिलकर वहां पूर्व की ओर अग्रवाल धर्मशाला राकेश गोयल की दुकान तक वहां से पूर्व की ओर प्रदीप जैता की दुकान से ठाकुर दास दवाई वाले की दुकान तक वहां से दक्षिण की ओर लुहारगली मस्जिद को शामिलकर मठी कोलियान आबादी शामिलकर धुरु पाण्डे के मकान को शामिलकर सेठ जी का नाका रामजीलाल पेडा वाले की दुकान तक वहां से उत्तर की ओर सेठ जी नाका होकर दाईं ओर की आबादी शामिलकर जैता की दुकान तक वहां से पश्चिम की ओर मुख्य बाजार होते हुये दाईं ओर की आबादी शामिलकर पीतम यादव के मकान तक
08	12 (बी) 13 14	रसीद ठेकेदार की खाली जमीन को सम्मिलित करते हुये गुमट रोड उत्तर की ओर बाईं आबादी को व शिवहरे भवनों को सम्मिलित करते हुये प्रभू सब्जी वाले की दुकान से पश्चिम में बाबू लाल के मकान व हरीमोहन के मकान को सम्मिलित करते हुये रामकिशन के मकान से दक्षिण की ओर श्री ग्याप्रसाद पूर्व अध्यक्ष के पुराने मकान को शामिल करते हुये बाबू लाल की दुकान जग्गो खेरापति जाटव बस्ती सुभाष कान्ति के मकान को सम्मिलित करते हुये पुनः रसीद ठेकेदार की खाली जमीन तक
09	16 17  18	गुमट तिकोनिया नगर पालिका की दुकानों के कोने से पूर्व की ओर रेल्वे स्टेशन की ओर कोलियान धर्मशाला को शामिल करते हुये क्रय-विक्रय के सामने से बचन पैलेस के पीछे वाली गली में होते हुये उत्तर की ओर दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुये अग्रसैन कॉलोनी एवं भरतपूजन के मकान के सामने होकर रास्ते के सहारे सहारे डाक्टर सुरेन्द्र के मकान को शामिल कर वापिस नगर पालिका की दुकानों तक।
10	29 30 31 54 (ए)	सेठ हजारी लाल की बर्फ फैक्ट्री के कोने से पूर्व की ओर रेल्वे लाइन के सहारे सहारे रेल्वे फाटक तक वहां से मलक जी की दुकानो को शामिल करते हुये दक्षिण की ओर मुन्ना घंडी साज की दुकान तक वहां से पश्चिम की ओर सीताराम बाजार में जैता पसारी की दुकान के सामने होकर शिवाजी मार्केट को शामिल करते हुये छोटे खेरा वाले के मकान को शामिल करते हुये वहां से सेठ हजारी लाल के मकान तक वहां से नाके में होकर पन्ना वैश्य के मकान के सामने होते हुये सेठ गूदरीया के पुराने मकान को शामिल करते हुये पुनः पश्चिम की ओर भगवानदास के नये मकान श्यामलाल के पुराने आरा मील तक वहां से उत्तर की ओर सामान्य हॉस्पिटल को शामिल करते हुये पीतम के मकान के सामने होते हुये वापिस सेठ हजारी लाल की बर्फ फैक्ट्री के कोने से होते हुये रेल्वे लाइन तक व गर्ल्स स्कूल के कोने से पूर्व की ओर गुलाब बगीची को शामिल

		करते हुये शिवकुमार भारद्वाज के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर नत्थी कम्पाउण्डर के पुराने मकान को शामिल करते हुये ऐबेनेजर स्कूल को शामिल कर पुनः गर्ल्स स्कूल के सहारे सहारे हॉस्पिटल होते हुये सेठ हजारी की बर्फ फैक्ट्री तक
11	25 (2) 26 27 (2)	पश्चिम में नगर पालिका सीमा तक पाती कुशवाह एवं वहां की बस्ती को शामिल करते हुये कृषि उपज मण्डी राजवीर धौरे वाले का मकान फकीरान बस्ती राना खां बिज्जो अवस्थी की दुकान आदि को शामिल करते हुये मथुरा पैलेस के पीछे से सिंघल हॉस्पिटल को शामिल कर दाई ओर की बस्ती को शामिल कर मुख्य सडक से नेता सालिगराम जी की कोठी को शामिल कर (पंचायत समिति को छोड़कर) प्रजापति कॉलोनी एवं तुलसीवन रोड की बाई एवं दाई तरफ की आबादी को शामिल कर महाराज बाग मेला ग्राउण्ड की दीवार के सहारे सहारे बसी हुई कॉलोनियां से उत्तर की ओर नगर पालिका सीमा तक
12	27 (1) 42	सन्त नगर रोड बिजली घर से दाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये एनएच 11 बी होते हुये पश्चिम की ओर होते हुये सरमथुरा रोड बामनी नदी नगर पालिका सीमा को शामिल करते हुये दाई ओर की आबादी एवं बाई ओर रामकुमार मीना की गली लालजीत कॉलोनी मीणा कॉलोनी कुशवाह कॉलोनी मेला ग्राउण्ड को शामिल करते हुये धनीराम प्रधान के मकान को शामिल करते हुये पंचायत समिति की आबादी को शामिल करते हुये भारद्वाज मार्केट की दाई आबादी को शामिल करते हुये अम्बेडकर पार्क के सामने की बस्ती को शामिल करते हुये पुनः पंचमुखी हनुमान मन्दिर इमामबाग मेला ग्राउण्ड होते हुये संत नगर मोड बिजली घर तक
13	41 (1) 41 (2) )	नेकराम पण्डित की दुकान सन्त नगर मोड से दाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये दक्षिण की ओर मैदीराम डाक्टर के मकान को शामिल करते हुये हाईवे तक वहां से पूर्व की ओर बारी आबादी को शामिल करते हुये दशरथ ठाकुर के खेत से होते हुये पेट्रोल पम्प वाले रास्ते पर बारी आबादी को शामिल करते हुये पुनः उत्तर की ओर महाराज बाग बस स्टैण्ड को शामिल करते हुये माता मन्दिर होते हुये नेकराम पण्डित की दुकान सन्त नगर मोड तक
14	32 33 34 35	पुराना बाजार में पुराना चबूतरा रामभरोसी कालू के मकान से दक्षिण की ओर पाताल देवी के सामने वाली गली में कोठारी के मकान व सन्तराश पाडा इमाम बाडा के सामने होते हुये शेर गली तक वहां से उत्तर दक्षिण की ओर ठाकुरदास पटवारी के मकान को शामिल करते हुये लियाकत मैम्बर के नये मकान ताज टॉकीज तक वहाँ से मुख्य सडक बसेडी रोड को क्रॉस करते हुये श्रीचन्द मीना की दुकान गुरु की बगिया अम्बेडकर पार्क पुलिस टाउन चौकी की आबादी को शामिल करते हुये वीरेन्द्र ठाकुर की दुकान के सहारे सहारे हवेली पाडा की

		आबादी को शामिल करते हुये हरिओम शर्मा की दुकानों को शामिल करते हुये जोशी पाडा तिराहे तक वहां से पुनः बटवाल पाडा मस्जिद के पीछे रास्ते के सहारे सहारे फरसा कॉलोनी गाँधी पाडा को शामिल करते हुये पूर्व की ओर हरविलास मास्टर के मकान को शामिल करते हुये त्रिलोकी नाथ के मकान को शामिल करते हुये पुराने बाजार में पुराने चबूतरे तक।
15	54 (बी) 55 56 57	गुलाब बगीची से डा. रमेश गोयल के मकान होते हुये डबगरान की आबादी को शामिलकर कसाई पाडा सडक से दक्षिण की ओर लंगडा बाढई के मकान को शामिल कर बदरूद्दीन मास्टर की गली में होकर ताजिया चौकी तक वहां से पूर्व दक्षिण की ओर गली कसाइयान होते हुये विशम्भरदयाल के मकान के सहारे होते हुये द्वारिका वकील के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मन्दिर व पण्डित भगवानस्वरूप भारद्वाज के मकान के सामने से बटवाल पाडा की मस्जिद को शामिल कर जोशी पाडा शामिल कर पश्चिम की ओर श्याम वाटिका शामिल कर पवन हक्कल वाली गली से होकर गुलाब बगीची तक
16	59 60 61	लुहार बाजार सलाम की दुकान से दक्षिण की ओर दाई ओर की आबादी शामिल कर राकेश शिवहरे की दुकान तक यहां से शीशगरान गली दाई ओर आबादी बरौला पाडा मुन्ना लटूरी के मकान के सामने होते हुये कुम्हारों की अथाई होते हुये ठाकुर दास दवाई वाले के मकान के सामने वाली गली दाई ओर की कसाईयान आबादी शामिल कर कुरैशी पाडा रोड मुख्य सडक तक वहां से कसाई मस्जिद शामिल कर ज्ञानी हलवाई की दुकान के सामने होकर दाई ओर की आबादी शामिल कर घुरू पाण्डे की गली कोलियों की अथाई से होकर इरफान अहमद चेयरमैन के मकान को शामिल कर सलाम की दुकान तक
17	52 62  63 64 65	गाँधी पार्क के पास ओमप्रकाश तमोली की दुकान से पश्चिम की ओर दमदमा हजीरा के सामने होते हुये काजी वाली गली रूईयाओं के मकान को शामिल करते हुये हीरा कुशवाह के मकान से दाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये पाताल देवी मन्दिर से होकर पुनः पश्चिम की ओर सरला कपडा वाले की दुकान को शामिल करते हुये दिनेश लाईब्रेरियन के मकान के सामने होते हुये आर्य समाज के मन्दिर की ओर एवं दाई ओर की बस्ती को शामिल कर पुनः उत्तर की ओर ठाकुरदास दवाई वाले के मकान को शामिल कर मोदी पाडा पीपल चैक को शामिल करते हुये पुनः पश्चिम की ओर दाई ओर की आबादी को शामिल कर बाबू रूईया के मकान से पूर्व की ओर शीशगरान गली जगदीश एडवोकेट के मकान को शामिल कर मुख्य बाजार दाई ओर को शामिल कर दक्षिण की ओर पुनः पुराना बाजार को शामिल कर ओमप्रकाश तमोली की दुकान तक
18	48 (ए) 51	गाँधी पार्क के कोने से दक्षिण की ओर बिजली घर वाली गली में बिजली घर को शामिल करते हुये दाई ओर की आबादी नारायण एडवोकेट के मकान को शामिल

	53	कर जावेद पंतग की गली में होते हुये मकबूल की चक्की एवं पुनः दक्षिण की ओर रामभरोसी विधौलिया के मकान को शामिल कर राकेश विधौलिया की दुकान होते हुये सुनार गली दाई ओर की आबादी को शामिल कर कोट पाडा मुख्य सडक के सहारे सहारे पश्चिम की ओर दाई ओर की आबादी को शामिलकर विवेक स्कूल पालीवाल धर्मशाला होते हुये सन्तराश बस्ती होते हुये जुगनू पहलवाने के मकान के सामने की आबादी को शामिल कर शेर वाली गली दाई ओर की बस्ती होते हुये पूर्व की ओर राधेश्याम बकील के मकान से उमरेह वालों के मकान होते हुये रमा के मकान होते हुये दमदमा दाई ओर की आबादी को शामिल कर रामसिंह पोददार के मकान होकर गाँधी पार्क के कोने तक
19	36 37 38 50 (बी)	विध्या हलवाई की दुकान से उत्तर की ओर ताज टॉकीज तक वहां से पूर्व की ओर दाई ओर की आबादी को शामिल कर रामचरन टेलर के मकान को शामिल कर जुगनू पहलवान के मकान तक वहां से पूर्व की ओर दाई ओर की आबादी इमामबाडा शामिल कर सीता वालों की दुकान तक वहां से दक्षिण की ओर पिल्लू (अवधेश) पण्डित के मकान को शामिल कर रावत पाडा स्कूल तक वहां से भटपुरा कालिया पाडा दाई ओर की आबादी को शामिल कर संतनगर धर्मशाला के सामने होते हुये विधा हलवाई की दुकान तक
20	39 40 41	हथियापौर पण्डित रामबल्लभ पाराशर के मकान से पाराशरों की हवेली को शामिल करते हुये रास्ते से गोविन्द गुरु के मकान को शामिल करते हुये पश्चिम की ओर रास्ता कालिया पाडा दिलावर पटवारी की दुकान तक वहां से उत्तर की ओर बाडी धौलपुर रोड बिज्जो ठाकुर की दुकान को शामिल करते हुये बाई ओर की ठाकुर पाडा बस्ती पप्पू की ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से आगे उत्तर दिशा में हरिजन वाला रास्ता बाई ओर की जाटवान बस्ती को शामिल करते हुये हथियापौर प्राथमिक स्कूल उत्तर की ओर वापिस पण्डित रामबल्लभ पाराशर के मकान तक
21	47 48 (बी) 49 50 ए	मकबूल की चक्की से पूर्व की ओर दाई ओर की आबादी शामिल कर रज्जाक के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर दाई ओर की आबादी शामिल कर हरिविलास समाधिया के मकान तक वहां पश्चिम की ओर डीडी सर चामड मन्दिर को शामिल कर वहां से उत्तर की ओर हरीबाबू खेमरिया के मकान के सामने पश्चिम की ओर संस्कृत स्कूल तक वहां से किशन बाबू पचौरी के मकान को शामिल कर उत्तर की ओर गली के पूर्व का हिस्सा वहां से पूर्व की ओर सुनार गली के दाई ओर की आबादी को शामिल कर अशोक विधौलिया अध्यापक को शामिल कर दाई ओर की आबादी मुरारी सारास्वत के सामने होकर मकबूल की चक्की तक
22	43 (1) 43 (2)	हथियापौर चामड माता लट्टे बाबू के मकान से दक्षिण की ओर हरिजन बस्ती को

	84 (ए)	शामिल करते हुये मुख्य सडक धौलपुर रोड पूर्व दिशा में प्रताप परमार सीमेन्ट की दुकान सडक के बाईं ओर की बस्ती को शामिल करते हुये भगवान सिंह बघेला के घर से होते हुये बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुये नाई वाली गली में बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुये जहूर दूधिया के मकान से वहां से उत्तर की ओर हरिविलास समाधिया के मकान होकर पश्चिम की ओर मदन कम्पाउण्डर के मकान की बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुये चामड माता के पास लट्टे बाबू के मकान तक
23	44 45 46 (1) ए	परशुराम धर्मशाला से दक्षिण की ओर परशुराम कॉलोनी व वनवारी वैध की कॉलोनी को शामिल कर पुष्पेन्द्र मास्टर के मकान से दाईं ओर की आबादी होते हुये नगर पालिका सीमा तक वहां से पश्चिम की ओर नगर पालिका सीमा के सहारे सहारे गौरव पथ की दाईं ओर की आबादी होते हुये गर्ग पेट्रोल पम्प एवं पुनः दक्षिण की ओर अनूप टॉकीज को शामिल कर परशुराम धर्मशाला तक
24	46 (1) बी 46 (2)	कांसौटी खेडा रोड से दक्षिण की ओर की आबादी को शामिल कर नगर पालिका सीमा हाईवे तक वहां से पश्चिम की ओर पुष्पेन्द्र मास्टर वाला दगरा गिराज मत्सूरा वाले के मकान के सामने होते हुये पुरा जाटवान कुशवाह बस्ती कोली आबादी को शामिल कर परशुराम धर्मशाला के पीछे तेजू के प्लॉट होते हुये पूर्व की ओर कांसौटी खेडा रोड तक
25	82 83 84 ए 85	भगवान सिंह बघेला के मकान के सामने की आबादी लेते हुये मस्जिद के सहारे होते हुये आमीन शाह के मकान के सामने चुन्ना खों के मकान को शामिल कर अशोक के मकान तक एवं घूघस वाली गली के सहारे दाईं ओर की आबादी शामिल कर गोपाल हरिजन के मकान को शामिल कर अन्दाना पैलैस के पीछे की आबादी तथा बांके वाली कॉलोनी शामिल कर नगर पालिका सीमा होते हुये उत्तर की ओर खेरे रोड के सहारे सहारे कायस्थ पाडा पुलिया भगवान सिंह बघेला के मकान के सामने तक
26	79 80 81	किला गेट से दक्षिण की ओर हरदैनियां के मकान को शामिल कर फूटी बुर्ग तक वहां से रामदीन समाधिया के मकान को शामिल कर घूघस वाले रास्ते की बायीं ओर की आबादी को शामिल कर मुख्य सडक धौलपुर रोड रमेश जगरिया के मकान होकर उत्तर की ओर सडक के सहारे बायीं ओर की आबादी को शामिल करते हुये चन्द्रशेखर गेट बाईं पास होते हुये पश्चिम की ओर किला दीवाल के सहारे सहारे दाईं व बाईं आबादी किला को शामिल कर किला गेट तक
27	74 (बी) 77 78	प्रताप मास्टर के मकान से पूर्व की ओर बाईं पास तक दाईं ओर की आबादी शामिल कर मास्टर कॉलोनी जैनव गार्डन शामिल कर बाईं पास ढरकाई हौद रामअवतार गंगोली के मकान को शामिल कर वहाँ पूर्व की ओर दाईं ओर महेश

		भट्टे के मकान को शामिल कर दाईं ओर की आबादी शामिल कर काली माई मन्दिर तक वहां से पूर्व की ओर तहसीलदार की तिवरिया तक दाईं ओर की आबादी आनन्द विहार कॉलोनी शामिल करते हुये जसवन्त सिंह पूर्व विधायक के प्लॉट के बगल वाले दगरे से पश्चिम की ओर दाईं ओर की आबादी शामिल कर नगर पालिका नाले के सहारे सहारे प्रताप मास्टर के मकान तक
28	74 (ए) 75 76	रामदीश भारद्वाज एडवोकेट के प्लॉट से चेतन नगर दाईं ओर की आबादी को शामिल कर उत्तर की ओर सीता बगीची के सामने होकर दाईं ओर की आबादी शामिल कर टेकू बगीची चकाचक बगीची शामिल कर कुशवाह बस्ती तिलुआ का अड्डा लाहौरिया का पुरा सरदारों को अड्डा बत्तीपुरा नगर पालिका सीमा तक वहां से उत्तर की ओर पूर्व विधायक जसवंत के प्लॉट के सामने होकर तहसीलदार तिवरिया से पूर्व की ओर दाईं ओर की आबादी शामिल कर रामदीश भारद्वाज के प्लॉट तक कालीमाई मन्दिर तक
29	72 73	गली नं. 3 बजरंग कॉलोनी महावीर गोयल के मकान से उत्तर की ओर दीनदयाल मास्टर के मकान को शामिल कर सुरेश वैध के मकान से होते हुये दिनेश रनधीर पुरा के मकान को शामिल कर उत्तर की ओर मुन्ना कुशवाह के मकान होते हुये कुशवाह बस्ती कहार पाडा नाला के सहारे दाईं ओर की बस्ती रूमा के मकान को शामिल कर क्वारी बिटिया कब्रिस्तान से उदय सिंह गुर्जर के मकान को शामिल कर गली नं. 11 को शामिल कर पश्चिम में गली नं. 3 महावीर गोयल के मकान एवं चोबसिंह कुशवाह के मकान से अशोक गोयल की दुकान तक हौद बाईं ओर का हिस्सा
30	67 बी 70 71	विष्णु गोयल मुख्य बाजार उत्तर की ओर दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुये महावीर गर्ग की दुकान तक वहां से पूर्व की ओर आजाद गली में होकर बट्टी बर्तन वाले के मकान से दूधिया के मकान होकर सुभाष बसेडी वालों के मकान होते हुये फकीरान बस्ती सैयद को शामिल कर दीनदयाल मास्टर के पीछे की आबादी को शामिल कर गली नं. 3 में सुरेश की दुकान को शामिल कर पश्चिम की ओर विष्णु गोयल तक
31	66 67 ए 68	टीटू वैश्य की दुकान से मुन्शी पान वाले की दुकान तक दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुये साबुददीन बताशे वाले के गोदाम तक वहां से पश्चिम की ओर दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुये डाक्टर इकबाल के मकान को शामिल करते हुये कहार बस्ती धोबी बस्ती कुम्हार बस्ती को शामिल करते हुये टीटू वैश्य की दुकान तक
32	94 95 96 97	मुख्य बाजार कहार पाडा के कोने की प्याऊ से पूर्व की ओर कहार पाडा नाले के सहारे सहारे डा० विजेन्द्र सिंह के मकान तक, वहां से उत्तर की ओर गली की बायीं ओर की आबादी को शामिल करते हुये मुरारीलाल वकील के मकान



		<p>तक, वहां से पुनः पश्चिम की ओर शिवचरन बाबूजी के मकान के सामने होकर हुक्मी देवीलाल के मकान तक, वहां से पश्चिम की ओर डालचन्द तमोली के मकान को शामिल करते हुये गली दीनदयाल धनीराम के मकान के सामने से निकल कर फकीरों की मस्जिद तक, वहां से पुनः पश्चिम की ओर गोपाल पाठक कानूनगो के मकान को शामिल कर मुख्य रास्ता मलक पाडा से रामभरोसी पचौरी की दुकान तक वहां की ओर मुख्य बाजार के सहारे सहारे बायीं ओर की आबादी को शामिल कर पुरानी सब्जी मण्डी के सामने से होकर वापस कहार पाडा प्याऊ तक</p>
33	90 91 92	<p>मलक पाडा में बाबूलाल तमोली के मकान से पश्चिम की ओर राधेश्याम पण्डित के मकान होकर श्रीया बाबू के मकान तक, वहां से गंगाराम कैलाशी के मकान के सामने होते हुये फकीरों के रास्ते होकर दक्षिण की ओर दीनदयाल धनीराम के मकान को शामिल करते हुये देवीलाल के मकान से होकर मलक पाडा में शिवचरन लखनलाल के मकान के सामने होकर पुनः पूर्व की ओर रामदास बेला के मकान को शामिल करते हुये गुठिल्ला चैक रास्ते से सीधे रामेश्वर मकान के सहारे सहारे दाई ओर की आबादी शामिल कर नाले के सहारे सहारे चिलाचौंद वालों के मकान को चन्दू पण्डित के मकान को शामिल कर उत्तर की ओर दाई ओर की आबादी शामिल कर समसुददीन मास्टर के मकान को शामिल कर बाबूलाल तमोली के मकान तक</p>
34	86 87 93	<p>रामस्वरूप भरमूजा के मकान से पश्चिम, दक्षिण की ओर किरोरी की दुकान को शामिलकर सडक के सहारे की आबादी को व रामनिवास बकील के घर को शामिलकर मलाई वाले कुए तक, वहाँ से पूर्व की ओर टेकू वाली बगीची के सामने होकर तुलसी काशीराम के अड्डे व आस पास की आबादी को शामिलकरते हुये दगरे के सहारे दाई ओर की आबादी टीका मैम्बर के मकान के सामने होकर मनीराम मैम्बर के मकान के सामने होकर उत्तर की ओर अमन जाटव के मकान तक वहां से पुनः पश्चिम की ओर की गली दीनेश्वर की बाई ओर की आबादी शामिल करते हुये समशुददीन मास्टर के मकान के सामने होकर रामनिवास बेला के मकान होते हुये रामस्वरूप भरमूजा के मकान तक</p>
35	88 89	<p>राकेश जाटव की दुकान से पूर्व की ओर दाई ओर की आबादी शामिल कर कुशवाह कोलियान आबादी शामिल कर नगर पालिका सीमा तक वहां दक्षिण की ओर कुषवाहों की आबादी शामिल कर अड्डों को शामिल कर मीठे कुए तक वहां से टीका मैम्बर के पीछे से दाई ओर की आबादी शामिल कर लीलाधर कुशवाह के मकान के सामने की आबादी शामिल कर रामभरोसी कुशवाह के</p>

		सामने होकर राकेश जाटव पार्श्व की दुकान तक
36	103 104	किरी आदर्श स्कूल से पूर्व की ओर बाई ओर की आबादी शामिल कर नगर पालिका सीमा तक वहां से उत्तर की ओर गुहेरा नाला के सहारे सिग्नल तक वहां से रेल्वे लाईन के सहारे दाई ओर की आबादी शामिल कर रामअवतार पंचैरी के मकान तक वहां से उत्तर की ओर दयाल कॉलोनी, अध्यापक कॉलोनी शामिल कर किरी आदर्श स्कूल तक
37	100 101 102	देवी चरन जमींदार के मकान से उत्तर की ओर दाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये बुद्धा कुशवाह के मकान तक, वहां से पूर्व की ओर हरिजन बस्ती दाई ओर को शामिल करते हुये किशनी जाटव की दुकान तक, वहां से उत्तर की ओर होरी डांडा तक दाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये आदर्श विद्या मन्दिर के सामने वाली गली, दीनेश्वर मन्दिर की गली में पश्चिम की ओर दाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये किशनी जाटव की दुकान के सामने होते हुये दक्षिण की ओर समशुददीन मास्टर के मकान को शामिल करते हुये मांगीलाल चुंगी वालों के मकान के सामने दाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये देवीचरन जमींदार के मकान तक
38	98 99 110	आयुर्वेदिक अस्पताल से दक्षिण की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये ममौधनिया धर्मशाला तक, वहां से पूर्व की ओर सौंहा वाले पण्डित के मकान के सामने से होकर रामेश्वर चुंगी वाले के मकान को शामिल कर श्रीया बाबू के मकान तक, वहां से उत्तर की ओर छावनी वालों के मकान तक बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये गंगाराम गौड के मकान के सामने होते हुये अठपैरिया वालों के मकान को शामिल करते हुये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तक
39	105 106 107	धनौरा रोड रेल्वे क्रॉसिंग से दक्षिण की ओर दाई ओर की आबादी को शामिल कर भोला जाटव के मकान होते हुये पश्चिम की ओर किरी हवेली होते हुये रेल्वे लाईन के सहारे दाई ओर की आबादी को शामिल कर पूर्व की ओर रेल्वे क्रॉसिंग तक एवं वहां से उत्तर की ओर धनौरा रोड दाई ओर की आबादी भीम का अडडा, दौसा का अडडा, रेल्वे सिग्नल को शामिल करते हुये नगर पालिका सीमा एवं पुनः पश्चिम की ओर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे धनौरा रोड रेल्वे क्रॉसिंग तक
40	109 (1) 109 (2)	धनौरा रोड रेल्वे क्रॉसिंग से उत्तर की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये कुशवाह शमशान कोली बस्ती को शामिल कर नगर पालिका सीमा तक, वहां से पश्चिम की ओर विदरपुर रोड होते हुये हरी सिंह पटेल के अडडा के सामने होकर मोतीलाल मीना, सेड मन्दिर को शामिल कर जसवंत कुशवाह

		की दुकान होते हुये पूर्व की ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये धनौरा रोड रेल्वे क्रॉसिंग तक
41	108 109 (3)	होरी लाल के मकान से उत्तर की ओर नगर पालिका सीमा तक एवं सामुदायिक भवन को शामिल कर विदरपुर रोड कुशवाह आबादी होते हुये पश्चिम की ओर दाई ओर की आबादी को शामिल कर जसवंत की दुकान तक एवं मोतीलाल मीना वाली गली की बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुये नगर पालिका सीमा से होरी लाल के मकान तक
42	111 (1) 111 (2) 112 ए	रामजीलाल शोलंकी की दुकान सैपऊ रोड उत्तर की ओर दांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुये उदयभान सरपंच किशनसिंह पोस्ट मास्टर के मकान को शामिल कर वचन गुर्जर के मकान से पूरव की ओर मन्दिर वाली गली में दांयी ओर की आबादी शामिलकर (बन्टी के मकान वाली गली को छोडकर) मोतीलाल मीना वाली गली की दांयी ओर की आबादी शामिलकर दक्षिण की ओर जसवन्त की दुकान तक वहां से पश्चिम की ओर कृष्णा कॉलोनी दांयी ओर की आबादी दरगाह सैयद के पीछे समस्त आबादी को शामिल कर रामजीलाल सोलंकी की दुकान तक
43	112 बी 113 115 116  117	सुरेन्द्र गुर्जर के मकान से दक्षिण की ओर दाईं तरफ की आबादी को शामिल करते हुये डीपी तक ममौधन वाले वैद्य जी तक वहां से न्यू गुमट कॉलोनी को शामिल करते हुये रौंड काछीयान की आबादी को शामिल करते हुये उत्तर में कसाईयान एवं कुमारान वाले रास्ते की दायी ओर की आबादी को शामिल कर खदाने वाले रास्ते के सहारे सहारे सैपऊ रोड मन्दिर तक सैपऊ रोड नगर पालिका सीमा के आस पास की सीमा को शामिल कर सैपऊ रोड बरगद का पेड विशम्बर सरपंच मैरिज होम को शामिल करते हुये दक्षिण में सैपऊ रोड की बांयी ओर की बस्ती शामिल कर रमेश कुशवाह मिठठन कुशवाह के मकान को शामिल करते हुये मैरिज होम तक वहां से दक्षिण की ओर मुख्य सडक के सहारे सहारे पूरन प्रधान के मकान से दांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुये सुरेन्द्र गुर्जर के मकान तक एवं बन्टी वाली गली
44	3 (2) 5 114	किशनसिंह ठाकुर के मकान से पूरव की ओर दांयी आबादी को शामिलकरते हुये सैपऊ रोड पुलिस चैकी तक वहां से दक्षिण की ओर दांयी आबादी को शामिल करते हुये प्राइबेट बस स्टेड को शामिलकर कृष्ण गोपाल बकील के मकान तक दांयी ओर की आबादी शामिल कर वहां से पश्चिम की ओर पूरन कनिष्ठ अभियन्ता के मकान को शामिल कर वहां से उत्तर की ओर दांयी ओर की आबादी को शामिल कर इमली चैक होते हुये पूराने किले के सामने होकर

		नथोली पार्षद के सामने होकर दांयी ओर करीम कॉलोनी महल आबादी को शामिल करते हुये पुनः अलीगढ रोड तिराया किशनसिंह ठाकुर के मकान तक।
45	3 (1) 4 (1) 4 (2)	उत्तर में अलीगढ रोड से दांयी ओर मोनू ठेकेदार प्रताप कॉलोनी नगर पालिका सीमा तक आस पास के अड्डो को शामिल करते हुये वहां से पूरव की ओर मुख्य सडक सैपऊ रोड तक वहां से दक्षिण की ओर सैपऊ रोड पुलिस चैकी तक वहां से पश्चिम की ओर दांयी आबादी को शामिल करते हुये रॉयल मैरिज होम को शामिल करते हुये अलीगढ रोड मोनू ठेकेदार के मकान तक।

अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका बाडी

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।